

कोरोनावायरस (COVID-19) की अवधि में बहुसाँस्कृतिक समुदायों के लिए प्रतिक्रिया को वरीयता देना

कार्यक्रम तथ्यपत्रक - फरवरी 2021

Hindi | हिन्दी

OFFICIAL

कार्यक्रम का अवलोकन

कोरोनावायरस (COVID-19) के दौरान बहुसाँस्कृतिक समुदायों के लिए प्रतिक्रिया को वरीयता देना: चरण 2 ('कार्यक्रम') विक्टोरिया-स्थित बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित संगठनों को अनुदान प्रस्तुत करता है। यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित समुदायों पर कोरोनावायरस (COVID-19) महामारी और इसके प्रभावों के उत्तर में संगठन अच्छी तरह से प्रतिक्रिया कर पाएँ, और विशेषकर साँस्कृतिक और भाषाई रूप से विविधतापूर्ण (CALD) पृष्ठभूमियों से आने वाली महिलाओं व युवाओं, तथा साथ ही नए व उभरते हुए बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित समुदायों द्वारा अनुभव की जाने वाली विशिष्ट और विषम चुनौतियों पर प्रतिक्रिया कर सकें। यह कार्यक्रम स्थानीय सामुदायिक नेटवर्क और संगठनों के बीच क्षमता-निर्माण को बढ़ावा भी देना चाहता है।

वरीयता समूह

- नए और उभरते हुए बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित समुदाय।
- बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित युवाओं के नेतृत्व वाली और/या प्रमुख रूप से बहुसाँस्कृतिक युवाओं को समर्थन देने वाली परियोजनाएँ।
- बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित महिलाओं के नेतृत्व वाली और/या प्रमुख रूप से बहुसाँस्कृतिक महिलाओं को समर्थन देने वाली परियोजनाएँ।

कार्यक्रम के उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:



विक्टोरिया के बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित समुदायों में सकारात्मक कोरोनावायरस (COVID-19) मामलों की संख्या और अनुपात को कम बनाए रखना;



कोरोनावायरस (COVID-19) की जाँच कराने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं अनुपात को बढ़ाना, टीकाकरण की तैयारियों को समर्थन देना, तथा विक्टोरिया के बहुसाँस्कृतिक व आस्था-आधारित समुदायों में और अधिक उँची संख्या एवं अनुपात में व्यक्तियों को टीके लगवाने के लिए समर्थन देना;



विक्टोरिया के बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित समुदायों में विक्टोरियाई सरकार के स्वास्थ्य-संबंधी निर्देशों की समझ और इनके अनुपालन में बढ़ोत्तरी करना;



विक्टोरिया के बहुसाँस्कृतिक क्षेत्र में सशक्त भागीदारियाँ निर्मित करना; तथा



भविष्य में कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रकोप होने की रोकथाम में सुधार और समर्थन को बढ़ाने के लिए स्थानीय सामुदायिक नेटवर्कों, संगठनों और सेवाओं की क्षमता का निर्माण करना।

OFFICIAL



Families,
Fairness
and Housing

निधि का उपयोग

निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:

- **साजो-सामान की खरीदारी**, जैसे:
 -  आपातकालीन अनिवार्य राहत (जिसमें भोजन भी शामिल है);
 -  स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत वस्तुएँ, जैसे मास्क और हैंड सैनिटाइज़र; तथा
 -  संचार प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर।
- **सेवाओं का वितरण**, जैसे:
 -  सामुदायिक संलग्नता;
 -  स्वास्थ्य संचार और शिक्षा, और स्वास्थ्य-संबंधी सँदेशों का अनुवाद, तथा
 -  इस समर्थन के हिस्से के रूप में अनुवाद सेवाओं सहित आउटरीच और सामुदायिक समर्थन।
- समुदायों और उनके प्रतिनिधियों द्वारा पहचान की गई और बहुसाँस्कृतिक मामलों (Multicultural Affairs) द्वारा स्वीकार की गई **कोई भी अन्य गतिविधियाँ**, जो बहुसाँस्कृतिक और आस्था-आधारित समुदायों को कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण से सुरक्षित रहने में मदद करती हैं तथा लोगों को जाँच कराने और निर्देशों का पालन करने में समर्थन देती हैं; या कोरोनावायरस (COVID-19) के सामाजिक और आर्थिक खतरा कारकों और कमजोरियों को संबोधित करती हैं।

आवेदन कैसे करें

कार्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों तथा ऑनलाइन आवेदन-पत्र के लिंक सहित और अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ: <https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19>

आरंभ: 24 फरवरी 2021

समाप्ति: दोपहर 4बजे, शुक्रवार 28 मई 2021

देरी से या अधूरे जमा किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस दस्तावेज को अन्य प्रारूपों में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय रिले सेवा 13 36 77 का आवश्यकतानुसार उपयोग करके [1300 112 755](tel:1300112755) पर फोन करें, या [फंडिंग टीम, CALD समुदाय कार्यबल](mailto:multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au) <multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au> पर ईमेल भेजें।

विक्टोरिया सरकार, 1 ट्रेज़री प्लेस, मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत और प्रकाशित।

© विक्टोरिया राज्य, ऑस्ट्रेलिया, परिवार, निष्पक्षता और आवास विभाग (Department of Families, Fairness and Housing), फरवरी 2021.

कोरोनावायरस (COVID-19) की अवधि में बहुसाँस्कृतिक समुदायों के लिए प्रतिक्रिया को वरीयता कार्यक्रम की वेबसाइट पर उपलब्ध <<https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19>>